



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2213]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2009/पौष 10, 1931

No. 2213]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2009/PAUSA 10, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2009

का.आ. 3314(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 610ख की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलैक्ट्रॉनिक रीति में, कम्पनियों द्वारा कानूनी दस्तावेजों और अन्य संव्यवहारों को फाइल करने के लिए स्कीम का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम, “इलैक्ट्रॉनिक रीति में कम्पनियों द्वारा कानूनी दस्तावेजों और अन्य संव्यवहारों को फाइल करने के लिए स्कीम (दूसरा संशोधन) 2009” है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. इलैक्ट्रॉनिक रीति में कम्पनियों द्वारा कानूनी दस्तावेजों और अन्य संव्यवहारों को फाइल करने के लिए स्कीम के उपाबंध “क” के पैरा 4 के उप-पैरा (8) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) केन्द्रीय सरकार ने, केरल राज्य और लक्षद्वीप से प्राधिकार प्राप्त करने के पश्चात् उनकी ओर से 18 नवम्बर, 2009 से स्टाम्प शुल्क का संग्रहण भी आरंभ किया है और इसलिए संक्रमण अवधि को 1-1-2010 से बढ़ाकर 31-3-2010 तक कर दिया है । उन सभी राज्यों के संबंध में, जिन्होंने केन्द्रीय सरकार को उनकी ओर से स्टाम्प शुल्क का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है, किसी कंपनी के लिए इलैक्ट्रॉनिक रूप से स्टाम्प शुल्क का अनिवार्य संदाय करने के लिए प्रभावी तारीख 1 अप्रैल, 2010 होगी । उन राज्यों के संबंध में, जिनसे प्राधिकार अभी प्राप्त होना है, कंपनी एम.सी.ए. पोर्टल के बाहर स्टाम्प शुल्क का संदाय करती रहेगी” ।

[फा. सं. 1/04/2009-सीएल.-V]

अविनाश के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल स्कीम संख्यांक का.आ. 1844(अ), तारीख 26 अक्टूबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और संख्यांक का.आ. 2276(अ), तारीख 7 सितम्बर, 2009 द्वारा उसमें अंतिम संशोधन किए गए थे ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2009

S.O. 3314(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 610B of the Companies Act, 1956, the Central Government hereby makes the following Scheme to amend the Scheme for Filing of Statutory Documents and other Transactions by Companies in Electronic Mode, namely :—

1. (1) This Scheme shall be called as the “Scheme for Filing of Statutory Documents and other Transactions by Companies in Electronic Mode (Second Amendment), 2009”.

(2) It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Scheme for Filing of Statutory Documents and other Transactions by Companies in Electronic Mode, in Annexure ‘A’, in paragraph 4, in sub-paragraph (8), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

“(b) The Central Government, after receiving authorization from the State of Kerala and Lakshadweep, has started collection of stamp duty on their behalf also w.e.f. 18th November, 2009 and therefore, has extended the transition period from 1-1-2010 to 31-3-2010. The 1st day of April, 2010, shall be the effective date, for a company to compulsorily make payment electronically for stamp duty in respect of all the States which have authorized to the Central Government to collect stamp duty on their behalf. In respect of the States from whom the authorization is yet to be received, the company shall continue to pay stamp duty outside the MCA Portal”.

[F. No. 1/04/2009-CL-V]

AVINASH K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note:—The principal scheme was published *vide* number S.O. 1844(E), dated the 26th October, 2006 and was last amended *vide* number S.O. 2276(E), dated the 7th September, 2009.